

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023 — अग्रहायण 13, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़  
डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, इन्द्रावती खण्ड, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

आदेश

क्रमांक 13/चार/मत./वि.स.निर्वा./2023/8043. — विधानसभा आम निर्वाचन—2023 में राज्य के समस्त 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निर्वाचित अन्यर्थियों संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 308/पूर्व अनु०-०१/छ.ग.—वि.स./2023 दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 का एतदद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशन किया जाता है।

हस्ता. /—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001**

नई दिल्ली, तारीख 04 दिसम्बर, 2023 — 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

**अधिसूचना**

सं. 308/पूर्व अनु०—१/छ०ग०—वि.स./2023. — यतः छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्या ०८/चार/विसनि/2023, दिनांक 13 नवम्बर, 2023 एवं ०८/चार/अधिसूचना/वि.स.चु./2018, दिनांक 21 नवम्बर, 2023 को जारी की गई थी, के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नई विधानसभा के गठन के प्रयोजन हेतु साधारण निर्वाचन कराया गया और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों का परिणाम संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा घोषित कर दिया गया है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित यदि कोई हो, जैसा कि इस अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित है, एतद्वारा अधिसूचित करता है।

**अनुसूची**

(भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या 308/पूर्व अनु०—१/छ.ग.—वि.स./2023)

**राज्य का नाम—छत्तीसगढ़**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (श्री/ श्रीमती/ कुमारी)	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1—भरतपुर—सोनहट (अ.ज.जा.)	रेणुका सिंह सरूता	भारतीय जनता पार्टी
2—मनेन्द्रगढ़	श्याम बिहारी जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
3—बैकुंठपुर	भईया लाल राजवाड़े	भारतीय जनता पार्टी
4—प्रेमनगर	भूलन सिंह मराबी	भारतीय जनता पार्टी
5—भटगांव	लक्ष्मी राजवाड़े	भारतीय जनता पार्टी
6—प्रतापपुर (अ.ज.जा.)	शकुंतला सिंह पोते	भारतीय जनता पार्टी
7—रामानुजगंज (अ.ज.जा.)	राम विचार नेताम	भारतीय जनता पार्टी
8—सामरी (अ.ज.जा.)	उद्देश्वरी पैकरा	भारतीय जनता पार्टी
9—लुण्डा (अ.ज.जा.)	प्रबोध मिंज	भारतीय जनता पार्टी
10—अम्बिकापुर	राजेश अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
11—सीतापुर (अ.ज.जा.)	पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो	भारतीय जनता पार्टी
12—जशपुर (अ.ज.जा.)	रायमुनी भगत	भारतीय जनता पार्टी

13—कुनकुरी (अ.ज.जा.)	विष्णु देव साय	भारतीय जनता पार्टी
14—पथलगांव (अ.ज.जा.)	गोमती साय	भारतीय जनता पार्टी
15—लैलूंगा (अ.ज.जा.)	विद्यावती सिदार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16—रायगढ़	ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी)	भारतीय जनता पार्टी
17—सारंगढ़ (अ.जा.)	उत्तरी गनपत जांगड़े	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18—खरसिया	उमेश पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
19—धर्मजयगढ़ (अ. ज. जा.)	लालजीत सिंह राठिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20—रामपुर (अ.ज.जा.)	फूलसिंह राठिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21—कोरबा	लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन	भारतीय जनता पार्टी
22—कटघोरा	प्रेमचन्द्र पटेल	भारतीय जनता पार्टी
23—पाली—तानाखार (अ.ज.जा.)	तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
24—मरवाही (अ.ज.जा.)	प्रणव कुमार मरपची	भारतीय जनता पार्टी
25—कोटा	अटल श्रीवास्तव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
26—लोरमी	अरुण साव	भारतीय जनता पार्टी
27—मुंगेली (अ.जा.)	पुन्नूलाल मोहले	भारतीय जनता पार्टी
28—तखतपुर	धर्मजीत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
29—बिल्हा	धरम लाल कौशिक	भारतीय जनता पार्टी
30—बिलासपुर	अमर अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
31—बेलतरा	सुशांत शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
32—मस्तूरी (अ.जा.)	दिलीप लहरिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33—अकलतरा	राधवेन्द्र कुमार सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
34—जांजगीर—चांपा	ब्यास कश्यप पिता शनिराम कश्यप	इंडियन नेशनल कांग्रेस
35—सक्ती	चरण दास महंत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36—चन्द्रपुर	रामकुमार यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
37—जैजैपुर	बालेश्वर साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38—पामगढ़ (अ.जा.)	शेषराज हरवंश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39—सराईपाली (अ.जा.)	चातुरी नंद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
40—बसना	सम्पत अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
41—खल्लारी	द्वारिकाधीश यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
42—महासमुन्द	योगेश्वर राजू सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
43—बिलाईगढ़ (अ.जा.)	कविता प्राण लहरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
44—कसडोल	संदीप साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
45—बलोदा बाजार	टंक राम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी

46—भाटापारा	इंद्र साव	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
47—धरसीवा	अनुज शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
48—रायपुर ग्रामीण	मोतीलाल साहू	भारतीय जनता पार्टी
49—रायपुर नगर पश्चिम	राजेश मूणत	भारतीय जनता पार्टी
50—रायपुर नगर उत्तर	पुरन्दर मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
51—रायपुर नगर दक्षिण	बृजमोहन अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
52—आरंग (अ.जा.)	गुरु खुशवंत साहेब	भारतीय जनता पार्टी
53—अभनपुर	इन्द्र कुमार साहू	भारतीय जनता पार्टी
54—राजिम	रोहित साहू	भारतीय जनता पार्टी
55—बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)	जनक ध्रुव	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
56—सिहावा (अ.ज.जा.)	अंबिका मरकाम	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
57—कुरुद	अजय चन्द्राकर	भारतीय जनता पार्टी
58—धमतरी	ओंकार साहू	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
59—संजारी बालोद	संगीता सिन्हा	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
60—डॉडी लोहारा (अ.ज.जा.)	अनिला भेडिया	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
61—गुन्डरदेही	कुंवर सिंह निषाद	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
62—पाटन	भूपेश बघेल	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
63—दुर्ग ग्रामीण	ललित चंद्राकर	भारतीय जनता पार्टी
64—दुर्ग शहर	गजेन्द्र यादव	भारतीय जनता पार्टी
65—भिलाई नगर	देवेन्द्र यादव	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
66—वैशाली नगर	रिकेश सेन	भारतीय जनता पार्टी
67—अहिवारा (अ.जा.)	डोमनलाल कोर्सवाड़ा	भारतीय जनता पार्टी
68—साजा	ईश्वर साहू	भारतीय जनता पार्टी
69—बेमेतरा	दीपेश साहू	भारतीय जनता पार्टी
70—नवागढ़ (अ.जा.)	दयालदास बघेल	भारतीय जनता पार्टी
71—पंडरिया	भावना बोहरा	भारतीय जनता पार्टी
72—कवर्धा	विजय शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
73—खैरागढ़	यशोदा निलाम्बर वर्मा	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
74—डोंगरगढ़ (अ.जा.)	हर्षिता स्वामी बघेल	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
75—राजनांदगांव	डॉ. रमन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
76—डोंगरगांव	दलेश्वर साहू	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस
77—खुज्जी	भोलाराम साहू	इंडियन नेशनल कॉर्प्रेस

78—मोहला—मानपुर (अ.ज.जा.)	इन्द्रशाह मंडावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
79—अंतागढ़ (अ.ज.जा.)	विक्रम उसेण्डी	भारतीय जनता पार्टी
80—भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)	सावित्री मनोज मण्डावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
81—काँकेर (अ.ज.जा.)	आशा राम नेताम	भारतीय जनता पार्टी
82—केशकाल (अ.ज.जा.)	नीलकंठ टेकाम	भारतीय जनता पार्टी
83—कोन्डागांव (अ.ज.जा.)	लता उसेण्डी	भारतीय जनता पार्टी
84—नारायणपुर (अ.ज.जा.)	केदार कश्यप	भारतीय जनता पार्टी
85—बस्तर (अ.ज.जा.)	बघेल लखेश्वर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
86—जगदलपुर	किरण देव	भारतीय जनता पार्टी
87—चित्रकोट (अ.ज.जा.)	विनायक गोयल	भारतीय जनता पार्टी
88—दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.)	चैतराम अटामी	भारतीय जनता पार्टी
89—बीजापुर (अ.ज.जा.)	विक्रम मण्डावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
90—कोन्टा (अ.ज.जा.)	कवासी लखमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

आदेश से,

हस्ता./—

(एस.बी. जोशी)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

New Delhi, Dated 4th December, 2023 — 13 Agrahayana, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 308/ES-1/CG-LA/2023: - Whereas, in pursuance of Notification numbers 08/चार/अधिसूचना/विसनि/2023 dated 13th November, 2023 and 08/चार/विसनि/2023 dated 21st November, 2023 issued by the Governor of the State of Chhattisgarh under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the State of Chhattisgarh; and

Whereas, the results of the elections in all the Assembly Constituencies in the said General Election, have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the members elected for those Assembly Constituencies, along with their party affiliations, if any, as mention in the SCHEDULE of this Notification.

SCHEDULE

(SCHEDULE OF NOTIFICATION No. 308/ES-1/CGH-LA/2023 dated 4th December, 2023  
of Election Commission of India)

Name of the State- Chhattisgarh

No. and Name of Assembly Constituency	Name of Elected Member (Shri./Smt./Kum.)	Party Affiliation, if any
1-Bharatpur-Sonhat (ST)	Renuka Singh Saruta	Bharatiya Janata Party
2-Manendragarh	Shyam Bihari Jaiswal	Bharatiya Janata Party
3-Baikunthpur	Bhaiya Lal Rajwade	Bharatiya Janata Party
4-Premnagar	Bhulan Singh Marabi	Bharatiya Janata Party
5-Bhatgaon	Laxmi Rajwade	Bharatiya Janata Party
6-Pratappur (ST)	Shakuntala Singh Portey	Bharatiya Janata Party
7-Ramanujganj (ST)	Ram Vichar Netam	Bharatiya Janata Party
8-Samri (ST)	Udhheshwari Paikra	Bharatiya Janata Party
9-Lundra (ST)	Prabodh Minz	Bharatiya Janata Party
10-Ambikapur	Rajesh Agrawal	Bharatiya Janata Party
11-Sitapur (ST)	Poorv Sainik Ramkumar Toppo	Bharatiya Janata Party
12-Jashpur (ST)	Raymuni Bhagat	Bharatiya Janata Party
13-Kunkuri (ST)	Vishnu Deo Sai	Bharatiya Janata Party
14-Pathalgaoon (ST)	Gomati Sai	Bharatiya Janata Party
15-Lailunga (ST)	Vidyawati Sidar	Indian National Congress
16-Raigarh	Omprakash Choudhary (O.P. Choudhary)	Bharatiya Janata Party
17-Sarangarh (SC)	Uttari Ganpat Jangde	Indian National Congress
18-Kharsia	Umesh Patel	Indian National Congress

19-Dharamjaigarh (ST)	Laljeet Singh Rathia	Indian National Congress
20-Rampur (ST)	Phoolsingh Rathiya	Indian National Congress
21-Korba	Lakhanlal Devangan S/O Tulsiram Devangan	Bharatiya Janata Party
22-Katghora	Premchand Patel	Bharatiya Janata Party
23-Pali-Tanakhar (ST)	Tuleshwar Hira Singh Markam	Gondvana Gantantra Party
24-Marwahi (ST)	Pranav Kumar Marpachi	Bharatiya Janata Party
25-Kota	Atal Shrivastava	Indian National Congress
26-Lormi	Arun Sao	Bharatiya Janata Party
27-Mungeli (SC)	Punnulal Mohle	Bharatiya Janata Party
28-Takhatpur	Dharmjeet Singh	Bharatiya Janata Party
29-Bilha	Dharam Lal Kaushik	Bharatiya Janata Party
30-Bilaspur	Amar Agrawal	Bharatiya Janata Party
31-Beltara	Sushant Shukla	Bharatiya Janata Party
32-Masturi (SC)	Dilip Lahariya	Indian National Congress
33-Akaltara	Raghavendra Kumar Singh	Indian National Congress
34-Janjgir-Champa	Byas Kashyap S/O Shaniram Kashyap	Indian National Congress
35-Sakti	Charan Das Mahant	Indian National Congress
36-Chandrapur	Ramkumar Yadav	Indian National Congress
37-Jajjaipur	Baleshwar Sahu	Indian National Congress
38-Pamgarh (SC)	Sheshraj Harvansh	Indian National Congress
39-Saraipali (SC)	Chaturi Nand	Indian National Congress
40-Basna	Sampat Agrawal	Bharatiya Janata Party
41-Khallari	Dwarikadhish Yadav	Indian National Congress
42-Mahasamund	Yogeshwar Raju Sinha	Bharatiya Janata Party
43-Bilaigarh (SC)	Kavita Pran Lahrey	Indian National Congress
44-Kasdol	Sandeep Sahu	Indian National Congress
45-Baloda Bazar	Tank Ram Verma	Bharatiya Janata Party
46-Bhatapara	Indra Sao	Indian National Congress
47-Dharsiwa	Anuj Sharma	Bharatiya Janata Party
48-Raipur Rural	Motilal Sahu	Bharatiya Janata Party
49-Raipur City West	Rajesh Munat	Bharatiya Janata Party
50-Raipur City North	Purandar Mishra	Bharatiya Janata Party
51-Raipur City South	Brijmohan Agrawal	Bharatiya Janata Party
52-Arang (SC)	Guru Khushwant Saheb	Bharatiya Janata Party
53-Abhanpur	Indra Kumar Sahu	Bharatiya Janata Party
54-Rajim	Rohit Sahu	Bharatiya Janata Party
55-Bindranawagarh (ST)	Janak Dhruw	Indian National Congress
56-Sihawa (ST)	Ambika Markam	Indian National Congress
57-Kurud	Ajay Chandrakar	Bharatiya Janata Party
58-Dhamtari	Onkar Sahu	Indian National Congress

59-Sanjari Balod	Sangeeta Sinha	Indian National Congress
60-Dondi Lohara (ST)	Anila Bhendia	Indian National Congress
61-Gunderdehi	Kunwer Singh Nishad	Indian National Congress
62-Patan	Bhupesh Baghel	Indian National Congress
63-Durg Rural	Lalit Chandrakar	Bharatiya Janata Party
64-Durg City	Gajendra Yadav	Bharatiya Janata Party
65-Bhilai Nagar	Devendra Yadav	Indian National Congress
66-Vaishali Nagar	Rikesh Sen	Bharatiya Janata Party
67-Ahiwara (SC)	Domanlal Korsewada	Bharatiya Janata Party
68-Saja	Ishwar Sahu	Bharatiya Janata Party
69-Bemetara	Dipesh Sahu	Bharatiya Janata Party
70-Nawagarh (SC)	Dayaldas Baghel	Bharatiya Janata Party
71-Pandariya	Bhawna Bohra	Bharatiya Janata Party
72-Kawardha	Vijay Sharma	Bharatiya Janata Party
73-Khairagarh	Yashoda Nilamber Verma	Indian National Congress
74-Dongargarh (SC)	Harshita Swami Baghel	Indian National Congress
75-Rajnandgaon	Dr. Raman Singh	Bharatiya Janata Party
76-Dongargaon	Daleshwar Sahu	Indian National Congress
77-Khujji	Bholaram Sahu	Indian National Congress
78-Mohla-Manpur (ST)	Indrashah Mandavi	Indian National Congress
79-Antagarh (ST)	Vikram Usendi	Bharatiya Janata Party
80-Bhanupratappur (ST)	Savitri Manoj Mandavi	Indian National Congress
81-Kanker (ST)	Asha Ram Netam	Bharatiya Janata Party
82-Keshkal (ST)	Neelkanth Tekam	Bharatiya Janata Party
83-Kondagaon (ST)	Lata Usendi	Bharatiya Janata Party
84-Narayanpur (ST)	Kedar Kashyap	Bharatiya Janata Party
85-Bastar (ST)	Baghel Lakheshwar	Indian National Congress
86-Jagdalpur	Kiran Deo	Bharatiya Janata Party
87-Chitrakot (ST)	Vinayak Goyal	Bharatiya Janata Party
88-Dantewada (ST)	Chaitram Atami	Bharatiya Janata Party
89-Bijapur (ST)	Vikram Mandavi	Indian National Congress
90-Konta (ST)	Kawasi Lakhma	Indian National Congress

By order,

Sd/-

**(S.B. Joshi)**  
Principal Secretary  
Election Commission of India.